

घड़ियाल

असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिये ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (Orang National Park) को उसके मौजूदा आकार से तीन गुना अधिक वसित्त करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है।



प्रमुख बढि

परचिय:

- घड़ियाल जसिं गेवयिल भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होता है
 - मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जसिमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं।
- भारत में मगरमच्छों की तीन प्रजातियाँ हैं:
 - घड़ियाल (गेवयिलसि गैंगेटकिस): **IUCN** रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - मगर (**Crocodylus Palustris**): **IUCN**- सुभेद्य।
 - खारे पानी का मगरमच्छ (**Crocodylus Porosus**): **IUCN**- कम चिन्तीय।
 - तीनों को **CITES** के परशिष्टि। और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची। में सूचीबद्ध किया गया है।
 - अपवाद: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की खारे पानी की मगरमच्छ आबादी को **CITES** के परशिष्टि II में शामिल किया गया है।

घड़ियाल का नवास स्थान:

- प्राकृतिक आवास: भारत के उत्तरी भाग का ताज़ा पानी।
- प्राथमिक आवास: चंबल नदी (यमुना की एक सहायक नदी)।
- माध्यमिक आवास: घाघरा, गंडक नदी, गरिवा नदी (उत्तर प्रदेश), रामगंगा नदी (उत्तराखंड) और सोन नदी (बिहार)।

महत्त्व: घड़ियाल की आबादी नदी के स्वच्छ पानी का एक अच्छा संकेतक है।

संरक्षण के प्रयास

- लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र व प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल इको पार्क, मध्य प्रदेश)।

जोखमि:

- नदी प्रदूषण में वृद्धि, बाँध निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना और बाढ़।
- अवैध बालू खनन व अवैध शिकार।

ओरांग राष्ट्रीय उद्यान:

- ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है।
- यह असम के दर्रांग और सोनतिपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 78.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है।
- इसे 1985 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इसे 2016 में देश का 49वाँ टाइगर रज़िर्व घोषित किया गया।
- इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (IUCN साइट) का छोटा रूप भी माना जाता है क्योंकि दोनों पार्कों में एक समान परदृश्य है जिसमें दलदल, जलधाराएँ और घास के मैदान हैं।
- यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर गैंडों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रज़िर्व को 50वाँ नवीनतम टाइगर रज़िर्व घोषित किया गया है।

असम में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- डब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान।
- [मानस राष्ट्रीय उद्यान](#)।
- नामेरी राष्ट्रीय उद्यान।
- [काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान](#)।
- [देहगि पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान](#)।
- [बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य](#)।



7 NATIONAL PARKS IN ASSAM

- 6th : Raimona National Park (Notified in 2021)
- 7th : Dihing Patkai National Park (Notified in June 2021)

स्रोत: द हद्दू